

Spectacles

सुरक्षा चेतावनियाँ

उपयोग से पहले कृपया अपने Spectacles के साथ आने वाले पैकेज इन्सर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें उपयोग, सुरक्षा, वारंटी, देयता और वापसी और अदला-बदली के महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। अगर आपका इन्सर्ट खो गया है, तो इस खंड में दिए लेखों को पढ़ें।

Spectacles छोटे बच्चों के लिए नहीं बनाया गया है। Spectacles के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया support.spectacles.com पर जाएं जिसमें उत्पाद सहायता और वापसी की जानकारी शामिल है।

चेतावनियाँ – उपयोग से पहले पढ़ें

ध्यान दें! अपने Spectacles के कैमरे का उपयोग करना जोखिमों के प्रति आपके प्रतिक्रिया समय को बढ़ा सकता है। Spectacles में देखी जा सकने वाली एलईडी लाइट होती है जो आपका ध्यान भटका सकती हैं। जिन परिस्थितियों में आपके द्वारा पूरे ध्यान की ज़रूरत हो या जहाँ ध्यान भटकना आपको या अन्य लोगों को ख़तरे में डाल सकता हो, वहाँ अपने परिवेश पर ध्यान दें और कैमरे का उपयोग न करें।

चेहरे की चोट से बचें। ऐसी किसी भी गतिविधि के दौरान Spectacles न पहनें जिसे करते समय आप सामान्यतः धूप के चश्मे नहीं पहनते, जैसे कि तेज़ टक्कर के खेल और गतिविधियाँ। अगर आप ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं जिसमें आँखों की सुरक्षा की सलाह दी जाती है, वहाँ प्रमाणित सुरक्षात्मक चश्मा पहनें।

पानी में उपयोग। आपके Spectacles जल रोधी हैं और केवल छिछले पानी की गतिविधियों में उपयोग किए जा सकते हैं। देर तक डुबोए रहने से बचें और टक्कर या अचानक डूबने वाली जोखिम की गतिविधियों के दौरान Spectacles न पहनें। पानी में डूबने पर, अपने Spectacles को अच्छे से सुखाएं और सभी चार्जिंग क्षेत्रों पर लगी गंदगी और अवशिष्ट साफ़ कर दें।

चार्जिंग। अपना Spectacles चार्ज करने के लिए केवल दी गई चार्जिंग केबल और एजेंसी-अनुमोदित पॉवर एडाप्टर ही उपयोग करें। Spectacles और चार्जिंग केस के चार्जिंग क्षेत्रों को साफ़-सुथरा और अवशिष्ट से मुक्त रखें। चार्जिंग क्षेत्रों को साफ़ करने के लिए दिए गए साफ़ करने के कपड़े से पोंछ दें, ज़रूरत हो तो उसे हल्का गीला कर लें।

ड्राइविंग। ड्राइविंग करते समय Spectacles कैमरा न पहनें।

हवाई यात्रा। Spectacles के साथ हवाई यात्रा करने से पहले निजी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर लागू हवाई सुरक्षा प्रशासन प्रतिबंधों की जाँच कर लें। Spectacles में लीथियम आयन बैटरियाँ होती हैं और हवाई यात्रा करते समय उन्हें चेक-इन बैगेज में नहीं रखना चाहिए।

Spectacles

चिकित्सा उपकरण। Spectacles में चुंबक और अन्य पुर्जे होते हैं जो रेडियो तरंगें छोड़ते हैं, जो पेसमेकर और अन्य प्रत्यारोपित किए जाने लायक उपकरणों, सुनने की मशीन और इंसुलिन पंप जैसे चिकित्सीय उपकरणों के कार्य को प्रभावित कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सीय उपकरण है तो Spectacles का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर या उपकरण निर्माता से परामर्श लें। अगर किसी चिकित्सीय उपकरण से आपको व्यवधान महसूस होता है तो Spectacles का उपयोग करना बंद कर दें।

क्षतिग्रस्त Spectacles । चोट की संभावना से बचने के लिए, क्षतिग्रस्त Spectacles न पहनें या उपयोग न करें। अपने Spectacles की खुद मरम्मत करने की कोशिश न करें। अगर वे क्षतिग्रस्त हैं, तो support.spectacles.com से संपर्क करें।

ओवरहीटिंग (अधिक गरम होना)। सामान्य उपयोग के समय आपके Spectacles बहुत अधिक गरम नहीं होने चाहिए या उसकी गरमी से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो उनका उपयोग बंद कर दें और support.spectacles.com से संपर्क करें।

इलेक्ट्रिकल पुर्जे। आपके Spectacles में इलेक्ट्रिकल पुर्जे होते हैं, इसलिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ बरती जाने वाली सावधानियाँ बरतें। उन्हें पानी या अन्य तरल पदार्थों से दूर रखें और खुली लपटों या खुले इलेक्ट्रिकल खतरों के आस-पास, चर्म परिस्थितियों में, बैटरी चार्ज होते समय या बैटरी लीक होते समय या बैटरी के क्षतिग्रस्त होने पर उपयोग न करें। अपने Spectacles के किसी भी हिस्से को बदलने का प्रयास न करें।

बैटरी निकालना। Spectacles या चार्जिंग केस में से बैटरी निकालने या बदलने का प्रयास न करें। ऐसा करना सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है।